

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, मार्च 2—मार्च 8, 2014, शनिवार/फाल्गुन 11—फाल्गुन 17, 1935
No. 9] NEW DELHI, MARCH 2—MARCH 8, 2014, SATURDAY/PHALGUNA 11—PHALGUNA 17, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

आ. अ. 13.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2010 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :—

क्रम संख्या	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निर्हरता का कारण
1	2	3	4	5
1.	बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2010	1—वाल्मीकिनगर	रमाशंकर प्रसाद ग्राम — पुरानी गुदरी सोनारपट्टी, वार्ड नं. 8 बेतिया पो0— बेतिया थाना — नगर थाना बेतिया जिला — पश्चिम चम्पारण, बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहें ।
2.	—वही—	—वही—	पहवारी यादव ग्राम — रतवल पो0 —पतिलार थाना— चौतरवा जिला — पश्चिम चम्पारण, बिहार	—वही—
3.	—वही—	—वही—	रामनरेश साह ग्राम — पचरुखा पो0 — तीनफेड़िया थाना— नौरंगिया जिला — पश्चिम चम्पारण, बिहार	—वही—
4.	—वही—	—वही—	रामायण चौधरी ग्राम —रवतल पो0— चन्दरपुर बकवा थाना — चौतरवा जिला — पश्चिम चम्पारण, बिहार	—वही—
5.	—वही—	—वही—	साकेत कुमार पाठक ग्राम — मलकौली पटखौली पो0— पटखौली थाना — बगहा जिला —पश्चिम चम्पारण, बिहार	—वही—
6.	—वही—	07— चनपटिया	ओम प्रकाश शर्मा ग्राम+पो0— शिकारपुर थाना — मझौलिया जिला — पश्चिम चम्पारण, बिहार	—वही—
7.	—वही—	52— बहादुरगंज	शुकल मुरमु ग्राम — मालनी टोला डोहर पो0 — सोन्था थाना — बहादुरगंज जिला — किशनगंज, बिहार	—वही—
8.	—वही—	—वही—	असिफ रहमान ग्राम — मुशहरा पो0+थाना —टेढ़ागाछ जिला — किशनगंज, बिहार	—वही—
9.	—वही—	—वही—	राकेश कुमार दास ग्राम — कालपीड़ पो0+ थाना — बीबीगंज जिला — किशनगंज, बिहार	—वही—
10.	—वही—	—वही—	शमीम आलम ग्राम +पो0 महेश बथना थाना — बहादुरगंज जिला — किशनगंज, बिहार	—वही—
11.	—वही—	—वही—	सकील अख्तर ग्राम — दरनिया पो0— मेहरगंज थाना — बहादुरगंज जिला — किशनगंज, बिहार	—वही—

12.	बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2010	52— बहादुरगंज	हरि मोहन सिंह ग्राम — गोपालपुर पो0— नटुआपाड़ा थाना— बहादुरगंज जिला — किशनगंज, बिहार	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहें ।
13.	—वही—	55— कोचाधामन	दिनेश कुमार राम ग्राम+शहर —रुइधासा भाटिया बस्ती थाना — किशनगंज जिला — किशनगंज, बिहार	—वही—
14.	—वही—	—वही —	नसीर उद्दीन ग्राम — सुन्दरवारी इदगाह टोला पो0— सोन्हा थाना — कोचाधामन जिला — किशनगंज, बिहार	—वही—
15.	—वही—	—वही—	मुमताज अहमद ग्राम — रसूलगंज पो0— मौधोहाट थाना — कोचाधामन जिला — किशनगंज, बिहार	—वही—
16.	—वही—	60— रुपौली	अवधेश मंडल ग्राम — भिटठा टोला पो0— डुमरी थाना — भवानीपुर जिला — पूर्णियाँ, बिहार	—वही—
17.	—वही—	—वही—	विमल किशोर मंडल ग्राम — सुपौली दीरा पो0— ब्रह्मज्ञानी थाना — भवानीपुर जिला — पूर्णियाँ, बिहार	—वही—
18.	—वही—	वही	सुख सागर मंडल ग्राम0— खरकट्टा पो0— बहदूरा थाना — भवानीपुर, जिला — पूर्णियाँ, बिहार	—वही—
19.	—वही—	—वही—	दिनेश चौधरी ग्राम — डुमरी पो0— नयानंदगोला भाया—अयोध्यागंज बाजार (कुर्सेला) थाना — टीकापट्टी जिला— पूर्णियाँ, बिहार	—वही—
20.	—वही—	—वही—	दिलीप जायसवाल ग्राम— रामपुर परिहट पो0— चपहरी थाना — रुपौली जिला — पूर्णियाँ, बिहार	—वही—
21.	—वही—	106 जीरादेई	ओम प्रकाश सिंह ग्राम+पो0— हकाम थाना —सिवान मु0 जिला — सिवान, बिहार	—वही—
22.	—वही—	—वही—	भरत भगत ग्राम — सेमरा बुजुर्ग पो0— शाहपुरा थाना— नवतन जिला — सिवान, बिहार	—वही—

23.	बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2010	109— दरौंदा	मो0 असगर ग्राम—दक्षिण टोला सिवान, बिहार	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहें ।
24.	—वही—	—वही—	ओम प्रकाश यादव ग्राम+पो0— कचनार थाना— सिसवन जिला—सिवान, बिहार	—वही—
25.	—वही—	—वही—	विपिन बिहारी सिंह ग्राम — जटौर थाना — गुथानी जिला — सिवान, बिहार	—वही—
26.	—वही—	145— साहेबपुर कमाल	मो0 अनवार खान पिता —मो0 जैनुस आबदीन खां छोटी बलिया उपर टोला थाना — बलिया जिला— बेगू सराय, बिहार	—वही—
27.	—वही—	147— बखरी (अ. जा.)	विजय पासवान ग्राम — अरैया पो0— मानसी जिला — खगड़िया, बिहार	—वही—
28.	—वही—	—वही—	राम नरेश पासवान ग्राम+पो0 — डफरपुर जिला— बेगूसराय, बिहार	—वही—
29.	—वही—	149— खगड़िया	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा पिता— विजय वर्मा ग्राम— सबलपुर पो0— माड़र थाना — मोरकाही जिला— खगड़िया, बिहार	—वही—
30.	—वही—	186 दानापुर	राकेश कुमार गोप मोहल्ला — यादव नगर, नया टोला पो0— दानापुर कैन्ट जिला — पटना, बिहार	—वही—
31.	—वही —	—वही—	राम भजन सिंह यादव मोहल्ला — अवस्थि घाट पो0 — दीघा थाना — दानापुर जिला — पटना, बिहार	—वही —
32.	—वही—	—वही—	विनोद सिंह रामजीचक, दीघा, पो0— बाटागंज थाना —दीघा, जिला — पटना, बिहार	—वही—
33.	—वही—	187— मनेर	जवाहर सिंह ग्राम— रतन टोला पो0— महिनावीं थाना — मनेर जिला — पटना, बिहार	—वही—
34.	—वही—	191— विक्रम	वैकुण्ठ मांझी ग्राम — डिहरा पो0— खजुरी थाना — नौबतपुर जिला — पटना, बिहार	—वही—

35.	बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2010	200— बक्सर	बीर बहादुर उपध्यय ग्राम — परसिया पो0 — बड़की कुल्हरियाँ थाना — बक्सर औद्योगिक जिला— बक्सर, बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहें ।
36.	—वही—	201— डुमराँव	सत्येंद्र प्रसाद ग्राम +पो0— सोनपुरा थाना उदवन नगर जिला — भोजपुर, बिहार	—वही—
37.	—वही—	203— रामगढ़	छोटे लाल ग्राम+मसौढ़ा थाना— दुर्गावती जिला— कैमूर, बिहार	—वही—
38	—वही—	235—रजौली (अ.जा.)	राम कृष्ण पासवान ग्राम — बिसिआईत पो0— पसाढ़ी थाना — मेसकौर जिला —नवादा बिहार	—वही—
39.	—वही—	—वही—	राम अवतार पासवान ग्राम — भितिया कारीगिद्धि पो0—रामरायचक थाना — सिरदला जिला — नवादा, बिहार	—वही—
40.	—वही—	238— गेविन्दपुर	विकास कुमार ग्राम — विशुनपुर टोला बेला थाना — गोविन्दपुर, नवादा, बिहार	—वही—
41.	—वही—	—वही—	युगल यादव ग्राम — छनौन पो0— कोशि, थाना — रूपौ नवादा, बिहार	—वही—

[सं. 76/बिहार—वि.स./2010]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**ORDER**

New Delhi, the 26th February, 2014

O. N. 13 .— Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2010 from the State of Bihar as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column(4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:—

Sl. No.	Particulars of election	Number & Name of the Constituency	Name & Address of the candidate	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2010 from the State of Bihar	01- Valmikinagar	Ramashankar Prasad, Vill – Purani gudari, PO-Sonarpatti, Ward No. – 8, Bettiah, P.S- Bettiah, Dist.- West Champran, Bihar.	Failure to lodge any account of election expenses
2.	-do-	-do-	Pahawari Yadaw, Vill. – Ratwal , Post-Patilar, P.S. – Chautarwa, Dist.- West Champran, Bihar.	-do-
3.	-do-	-do-	Ramnaresh Sah, Vill – Panchrukha, P.S. – Tinpheriya, Ps – Nawrangia, Dist.-West Champran, Bihar.	-do-
4.	-do-	-do-	Ramayan Chaudhary, Vill- Ratwal, Post- Chandarpur Bakwa, PS- Chautarwa, Dist.- West Champran, Bihar.	-do-
5.	-do-	-do-	Saket Kumar Pathak, Vill – Malkauli Patkhauli, Post-Patkhauli, PS-Bagaha, Dist.-West Champaran , Bihar.	-do-
6.	-do-	07-Chanpatia	Om Prakash Sharma, Vill.+Post-Sikarpur, PS- Majhauria, Distt.-West Champaran. Bihar.	-do-
7.	-do-	52-Bahadurganj	Shukal Murmu Vill. malani Dohar, Po-Sontha, Ps-Bahadurganj, Dist. Kishanganj, Bihar .	-do-
8.	-do-	-do-	Asif Rahman Vill.- Mushara, PO+PS- Terhagachh Dist.- Kishanganj ,Bihar .	-do-
9.	-do-	-do-	Rakesh Kumar Das, Vill – Kalpir Po+Ps- Bibiganj, Dist- Kishanganj,Bihar.	-do-
10.	-do-	-do-	Shamim Alam Vill. – Maheshbathna, P.O.+P.S. – Bhadurganj , Dist. Kishanganj, Bihar.	-do-

11.	General Election to the Legislative Assembly, 2010 from the State of Bihar	52-Bahadurganj	Sakil Akhtar Vill.- Darnia, P.O. Meharganj, P.s Bahadurganj, Dist. Kishanganj,Bihar .	Failure to lodge any account of election expenses
12.	-do-	-do-	Hari Mohan Singh Vill.- Gopalpur, P.O. -Natwapara, Ps – Bahadurganj Dist. Kishanganj, Bihar.	-do-
13.	-do-	55- Kochadhaman	Dinesh Kumar Ram Town/Vill.-Ruhidhasa Bhatia Basti P.O.+ P.S. – Kishanganj Dist- Kishanganj, Bihar.	-do-
14.	-do-	-do-	Nasir Uddin Vill.- Sundar Bari Idgah Tola P.O.-Sontha PS – Kochadhaman, Dist- Kishanganj Bihar.	-do-
15.	-do-	-do-	Mumtaz Ahamad Vill. – Rasulganj, Sontha P.O – Moudho Hat PS.- Kochadhaman Dist- Kishanganj Bihar.	-do-
16.	-do-	60-Rupauli	Abadhesh Mandal Vill-Bhitha Tola Po-Dumri p.s.-Bhawanipur Dist- Purnia, Bihar.	-do-
17.	-do-	-do-	Vimal Kishor Mandal Vill- Supauli Dira P.o- Brahmagyani P.S.- Bhawanipur Dist- Purnia, Bihar.	-do-
18.	-do-	-do-	Sukh Sagar Mandal Vill- Kharkatta Po- Bahadura P. S.- Bhawanipur. Dist- Purnia, Bihar.	-do-
19.	-do-	-do-	Dinesh Chaudhary Po- Nayanand Gola Via- Ayodhaygang Bazar (Kurshela) P.S- Tikapatti Dist- Purnia, Bihar.	-do-
20.	-do-	do-	Dilip Jaiswal Vill- Rampur Parihat PO- Chapahari PS-Rupauli Dist- Purnia, Bihar.	-do-
21.	-do-	106- Ziradei	Om Prakash Singh Vill- Hakam, P.S- Siwan (M) Distt-Siwan, Bihar,	-do-

22.	General Election to the Legislative Assembly, 2010 from the State of Bihar	106- Ziradei	Bharat Bhagat Vill- Semera Bujurg P.O- Sahpur P.S- Nautan Distt- Siwan, Bihar.	Failure to lodge any account of election expenses
23.	-do-	109- Daraunda	Mohammad Asgher. Vill- Dakhin Tola, Siwan, Bihar.	-do-
24.	-do-	-do-	Om Prakash Yadav Vill-+Po-Kachanar, P.S. Siswan, Dsitt.-Siwan, Bihar.	-do-
25.	-do-	-do-	Bipin Bihari Singh Vill- Jataur. P.S.- Guthani. Dist-Siwan. Bihar.	-do-
26.	-do-	145- Sahebpur Kamal	Md. Anwar Khan, S/o Md. Jainulabdin Khan, At-Chhoti Ballia Upartela, PS-Ballia, Dist-Begusarai, Bihar.	-do-
27.	-do-	147- Bakhari (sc)	Vijay Paswan. Vill – Araia, Po-Mansi, Dist-Khagaria, Bihar.	-do-
28.	-do-	-do-	Ram Naresh Paswan Vill – Dafarpur, Po – Dafarpur, Distt- Begusarai, Bihar.	-do-
29.	-do-	149- Khagaria	Rajendra Kumar Verma S/o- Vijay Verma Vill-Sabalpur, PO- Marar, PS-Morkahi Distt- Khagaria, Bihar,	-do-
30.	-do-	186-Danapur	Rakesh Kumar Gope Mohalla-Yadav Nagar, Naya Tola, P.O. – Danapur Cantt, Distt. – Patna, Bihar.	-do-
31.	-do-	-do-	Ram Bhajan Singh Yadav, Mohalla-Awasthi Ghat, P.O.-Digha, P.S-Danapur, Patna, Bihar.	-do-
32.	-do -	-do-	Binod Singh Ramjee Chak, Digha, PO- Bataganj, PS – Digha, Distt-Patna, Bihar.	-do-

33.	General Election to the Legislative Assembly, 2010 from the State of Bihar	187-Maner	Jawahar Singh Vill-Ratan Tola, P.O- Mahinawan, P.S.-Maner, Distt Patna, Bihar.	Failure to lodge any account of election expenses
34.	-do-	191- Bikram	Vaikuntha Manjhi Vill-Dihra, Po-Khajuri , Ps-Naubatpur, Dist- Patna, Bihar.	-do-
35.	-do-	200-Buxar	Bir Bahadur Upadhayay, Vill.-Parasiya, P.O-Badaki Kulhadiya, PS-Buxer Industrial, Distt- Buxar, Bihar,	-do-
36.	-do-	201-Dumraon	Satyendar Prasad Vill. +P.O-Sonpura, P.S-Udwant Nagar, Distt-Bhojpur, Bihar.	-do-
37.	-do-	203- Ramgarh	Chhote Lal Vill-Masaurha, PS-Durgawati. Dist- Kaimur, Bihar.	-do-
38.	-do-	235- Rajauli (SC)	Ram Krishna Paswan Vill- Bisait, Post -Pasadhi Thana, Ps-Meskaur, Distt- Nawada, Bihar.	-do-
39.	-do-	-do-	Ramawtar Paswan, Vill- Bhitia Karigiddhi, Post –Ramraichak, Thana Sirdala, Distt.-Nawada, Bihar.	-do-
40.	-do-	238-Govind Pur	Vikash Kumar Vill-Bisunpur Tola Bela PS-Govindpur, Distt-Nawada, Bihar.	-do-
41.	-do-	-do-	Yugal Yadav Vill-Chanaun, Post-Koshi, PS-Rupo, Distt- Nawada , Bihar.	-do-

[No. 76/BR-LA/2010]

By Order,
R.K. SRIVASTAVA, Principal Secy.